




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 414]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2002/भाद्र 14, 1924

No. 414]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2002/BHADRA 14, 1924

कम्पनी विधि बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2002

सा.का.नि. 619(अ).—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ड की उपधारा (4ख) और उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2002 है।
(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 के अध्याय 2 में —

साधारण—

- (क) विनियम 4 (1) में “अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सहित दो से अन्यून सदस्यों से” शब्दों के स्थान पर “एक या अधिक सदस्यों से” शब्द रखे जाएंगे।
- (ख) विनियम 4 (1क) में “दो सदस्यों से अन्यून सदस्यों से” शब्दों के स्थान पर “एक या अधिक सदस्यों से” शब्द रखे जाएंगे।
- (ग) विनियम 4 (3) में—“दो सदस्यों से अन्यून सदस्यों से” शब्दों के स्थान पर “एक या अधिक सदस्यों से” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10/36/2001-सीएलबी]

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से,

ई. सेल्वराज, सचिव

टिप्पण :— मूल विनियम सा.का.नि. 29(अ) तारीख 31 मई, 1991 द्वारा संशोधित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उनका संशोधन किया गया :—

- (1) सा.का.नि. 492(अ) तारीख 14-5-1992
- (2) सा.का.नि. 593(अ) तारीख 25-7-1994
- (3) सा.का.नि. 394(अ) तारीख 2-5-1995
- (4) सा.का.नि. 433(अ) तारीख 1-8-1997
- (5) सा.का.नि. 917(अ) तारीख 14-12-2000
- (6) सा.का.नि. 437(अ) तारीख 15-6-2001
- (7) सा.का.नि. 929(अ) तारीख 31-12-2001

COMPANY LAW BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th September, 2002

G.S.R. 619 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (4B) and (6) of Section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Company Law Board hereby makes the following regulations further to amend the Company Law Board Regulations, 1991, namely :—

- 1 (1) These regulations may be called as the Company Law Board (Amendment) Regulations, 2002.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2 In the Company Law Board Regulations, 1991, in Chapter II—

GENERAL—

- (a) in regulation 4 (1)—for the words “not less than two members including the Chairman or Vice-Chairman” the words “one or more members” shall be substituted.
- (b) in regulation 4 (1A) for the words “not less than two Members” the words “one or more members” shall be substituted
- (c) in regulation 4 (3)—for the words “not less than two Members” the words “one or more members” shall be substituted

[F. No. 10/36/2001—CLB]

By order of the Company Law Board,
E. SELVARAJ, Secy

Footnote Note:—Principal Regulation was amended vide G.S.R. No. 29(E) dated 31-5-1991 and subsequently amended by :—

- (1) G S R No 492(E) dated 14-5-1992
- (2) G.S.R. No 593(E) dated 25-7-1994
- (3) G S R No. 394(E) dated 2-5-1995
- (4) G.S.R. No 433(E) dated 1-8-1997
- (5) G.S.R. No. 917(E) dated 14-12-2000
- (6) G.S.R. No. 437(E) dated 15-6-2001
- (7) G S R. No 929(E) dated 31-12-2001.